

Lesson – Mera Parichay (Introduction) Day 1

By the end of this lesson you will be able to formally introduce yourself in Hindi.

Formal introduction has three parts:

Greetings-नमस्ते,

few sentences about yourself, मेरा नाम----- है। मैं --- साल की हूँ । मैं ----- में रहती हूँ।

मेरे परिवार में ---लोग हैं। मुझे ----- पसंद है।

and

lastly taking leave (विदा) आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर मिलेंगे, धन्यवाद!

परिचय : Day 1

1. Please listen to my introduction on Edmodo.
2. Watch this video on self-introduction <https://www.youtube.com/watch?v=WkgdcOSsbCc>

You have these simple tasks to complete:

Task 1 :

1. Listen to the introduction. Read in transliteration.

नमस्ते

(namaste)

(Hello)

मेरा नाम वर्षा गुप्ता है।

(mera naam Varsha Gupta hai)

(my name is Varsha Gupta)

मैं ४३ साल की हूँ ।

(mein 43 saal ki hoon)

(I am 43 years old)

मैं अटलांटा में रहती हूँ।

(mein atlanta mein raheti hoon)

(I live in atlanta)

मेरे परिवार में ४ लोग हैं।

(mere parivaar mein 4 log hain)

(my family has 4 members)

मुझे टेनिस खेलना पसंद हैं।

(mujhe tennis khelna pasand hai)

(I like playing tennis.)

मुझे पास्ता खाना पसंद है।

(mujhe pasta khana pasand hai)

(I like eating pasta)

मुझे हरा रंग पसंद है

(mujhe hara rang pasand hai)

(I like green color)

आपसे मिलकर खुशी हुई।

(aapse mil kar khushi huee)

(its nice to meet you)

फिर मिलेंगे

(phir milenge)

(we will meet again)

धन्यवाद !

(dhanyawaad)

(thank you)

Task 2:

Using the sentence above as a reference, Find and write the meaning of the following words

I, my, name, am, years, like, family, color, playing

Task 3: (Assesment)

Fill in the Blanks using your own information.

मेरा नाम ----- है।

मैं ----- में रहती हूँ।

मेरे परिवार में -----लोग हैं ।

मुझे -----खेलना पसंद हैं ।

मुझे ----- खाना पसंद हैं।

मुझे -----रंग पसंद हैं

Task 3:

Write barhakhadi of the following letters

न, म, स, त, आ, प, क, ह, य, र, द, ल, ट

Underline all the “m” “म” letter in the text

Use this you tube link for barahkhardee practice and reference.

<https://youtu.be/ww9WvwfghNo>